



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1749]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 2008/अग्रहायण 24, 1930

No. 1749]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 15, 2008/AGRAHAYANA 24, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2899(अ).—विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, "एमोनियम नाइट्रेट या उसके मिश्रण" को उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए "विशेष श्रेणी के विस्फोटक पदार्थ" घोषित करती है।

[फा. सं. 11018/5/2007-आर्म्स]

डी. दीप्तिविलास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2008

S.O. 2899(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 2 of the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908), the Central Government hereby specifies "Ammonium Nitrate or a Combination thereof" as a "special category explosive substance" for the purposes of the said Act.

[F. No. 11018/5/2007-Arms]

D. DIPTIVILASA, Jt. Secy.